



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2008. (अग्रहायण 22, 1930)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13—DECEMBER 19, 2008 (AGRAHAYANA 22, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

निर्देश सं. एनएचबी. एचएफसी. निर्देश.24/सीएमडी/2008--राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए और संतुष्ट होकर कि देश की आवास वित्त प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धाराओं 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात्--

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 की मद (घ)(i) के अनुच्छेद 26 में, व्याख्या (3) के नीचे निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्--

“(i) वाणिज्यिक सम्पदा में कोष आधारित और गैर-कोष आधारित निवेश (कार्यालय भवन, फुटकर स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि)”	100
---	-----

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निर्देश सं. एनएचबी. एचएफसी. निर्देश.25/सीएमडी/2008--राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धाराओं 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार पुनः संशोधित किया जाता है, अर्थात्--

अनुच्छेद 26 में, व्याख्या (1) में--

मद (ख) (i) और (ii) की उप-व्याख्या (3) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(ख) (i) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 30 लाख रु. तक संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जबकि एलटीवी अनुपात = या < 75% है।	50
(ख) (ii) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 30 लाख रु. से अधिक संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जबकि एलटीवी अनुपात = या < 75% है।	75
(ख) (iii) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर संस्वीकृत आवास ऋण, राशि कुछ भी हो, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जबकि एलटीवी अनुपात > 75% है।	100

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 7 नवम्बर 2008

सं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/आई.एस.ए./दिसम्बर/2008--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1 सी.ए. (7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7, अनुसूची 'एफ' के रेगुलेशन 204 के अनुसार दि कांसिल ऑफ दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टमस ऑडिट (आई.एस.ए.) कोर्स की निर्धारित परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 को प्रातः 10.30 बजे से 2.30 बजे सांय तक निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं:--

परीक्षा केन्द्र:--

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. अहमदाबाद | 16. कानपुर |
| 2. बैंगलोर | 17. कोलकाता |
| 3. बरेली | 18. लखनऊ |
| 4. भुवनेश्वर | 19. लुधियाना |
| 5. बीकानेर | 20. मुम्बई |
| 6. चंडीगढ़ | 21. नागपुर |
| 7. चेन्नई | 22. नासिक |
| 8. दिल्ली/न्यू दिल्ली | 23. पूना |
| 9. ईरनाकुलम | 24. रायपुर |
| 10. गाज़ियाबाद | 25. राजकोट |
| 11. हैदराबाद | 26. रांची |
| 12. इंदौर | 27. सूरत |
| 13. जबलपुर | 28. उदयपुर |
| 14. जयपुर | 29. वाराणसी |
| 15. जलगांव | |

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है। यह परीक्षा इन्स्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं के लिये है। इस परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) के लिये परीक्षा शुल्क 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र है।

इस परीक्षा के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिये जो कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ

संयुक्त सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 12 नवम्बर, 2008 से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट की वेबसाईट डबल्यू डबल्यू डबल्यू आईसीएआई. ओआरजी से प्रिन्ट करके परीक्षा शुल्क 1025/- रुपये के साथ भी भेजा जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 2 दिसम्बर, 2008 है।

आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा वरिष्ठ संयुक्त सचिव (परीक्षा), नई दिल्ली को भेजा जाना है। परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होगा जो किसी भी शेड्यूल बैंक का होना चाहिये। डिमांड ड्राफ्ट 'सचिव' दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के पक्ष में होना चाहिये और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह वरिष्ठ संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 तक पहुंच जायें। दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

जी. सोमाशेखर
वरिष्ठ संयुक्त सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक

सं. एन-15/13/15/2/2008-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 नवम्बर, 2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ, पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

“ज़िला बर्दमान के बाभुनारा एवं बाँसकोपा मौजा के क्षेत्रों को शामिल करके।”

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कोलकाता-91, दिनांक अक्टूबर 2008

सं. कभनिस/आं. का./पू.क्षे/1(4) अधिसूचना/2008/275(1)--जैसा कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को समक्ष यह तथ्य उजागर है कि निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में नियोक्ता तथा अधिसंख्यक कर्मचारियों ने अपनी सहमति जताई है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के प्रावधान उनकी निम्नलिखित स्थापनाओं पर प्रयोज्य होने चाहिए:--

संख्या	कोड संख्या	स्थापनाओं का नाम	कवरेज तिथि	सहमति की तिथि
1.	डब्ल्यू.बी./48310	मैसर्स बसन्त प्रोपर्टीज़ लि.	01.12.2007	01.12.2007
2.	डब्ल्यू.बी./48331	मैसर्स पिलानी इनवेस्टमेंट एवं इन्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लि.	01.12.2007	01.12.2007
3.	डब्ल्यू.बी./48332	मैसर्स ग्वालियर फार्मान्स कारपोरेशन लि.	01.12.2007	01.12.2007
4.	डब्ल्यू.बी./48333	मैसर्स सेन्ट्रल इंडिया इन्डस्ट्रीज़ लि.	01.12.2007	01.12.2007

संख्या	कोड संख्या	स्थापनाओं का नाम	कवरेज तिथि	सहमति की तिथि
5.	डब्ल्यू.बी./48334	मैसर्स रांची इन्टरप्राइज एवं प्रोपरटीज लि.	01.12.2007	01.12.2007
6.	डब्ल्यू.बी./48335	मैसर्स यूनिवर्सल ट्रेडिंग कं. लि.	01.12.2007	01.12.2007
7.	डब्ल्यू.बी./48337	मैसर्स हिन्दुस्तान डिसकाउन्टिंग कं. लि.	01.12.2007	01.12.2007
8.	डब्ल्यू.बी./48338	मैसर्स बंगाल रबड़ कं. लि.	01.12.2007	01.12.2007
9.	डब्ल्यू.बी./48339	मैसर्स सेन्ट्रल इन्डिया जनरल एजेन्ट्स लि.	01.12.2007	01.12.2007
10.	डब्ल्यू.बी./48340	मैसर्स गंगा प्रोपरटीज लि.	01.12.2007	01.12.2007
11.	डब्ल्यू.बी./48341	मैसर्स पिलानी प्रोपरटीज लि.	01.12.2007	01.12.2007
12.	डब्ल्यू.बी./48342	मैसर्स प्रोड्यूस एण्ड शेयर ब्रोकर्स लि.	01.12.2007	01.12.2007
13.	डब्ल्यू.बी./48343	मैसर्स जनार्दन ट्रेडिंग कं. लि.	01.12.2007	01.12.2007
14.	डब्ल्यू.बी./48344	मैसर्स राजस्थान इन्डस्ट्रीज लि.	01.12.2007	01.12.2007
15.	डब्ल्यू.बी./48345	मैसर्स रामेश्वर जूट एवं अन्य कन्सर्न्स प्रोविडेंट फन्ड	01.12.2007	01.12.2007
16.	डब्ल्यू.बी./48346	मैसर्स सूर्य वाणिज्य एवं इनवेस्टमेन्ट लि.	01.12.2007	01.12.2007
17.	डब्ल्यू.बी./48380	मैसर्स आदित्य मार्केटिंग एवं मैनुफैक्चरिंग लि.	01.01.2008	01.01.2008
18.	डब्ल्यू.बी./48384	मैसर्स वासवदत्त सर्विसिस लि.	01.01.2008	01.01.2008
19.	डब्ल्यू.बी./48385	मैसर्स जेनीथ डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं एजेन्ट्स लि.	01.01.2008	01.01.2008
20.	डब्ल्यू.बी./48391	मैसर्स ग्वालियर वेबिंग कं. प्रा. लि.	01.01.2008	01.01.2008
21.	डब्ल्यू.बी./48388	मैसर्स दि पंजाब प्रोड्यूस एवं ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	01.01.2008	01.01.2008

अतः उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उपरोक्त स्थापनाओं के संबंध में उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तिथियों से उक्त अधिनियम के प्रावधान को एतद्वारा लागू करते हैं।

एम. एम. दास

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

जयपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

सं. पीटीएमआर-नियुक्ति/रा.चि.आ.--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियों महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में मुख्यालय के पत्र संख्या Pt. File No. U-13/12/13/2005-Med.1/PTMR dated 09.09.08 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, जयपुर (राजस्थान) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ:--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. रमेश नारायण लढा	01.12.08 से 30.11.09	उदयपुर एवं कांकरोली
		डॉ. रश्मि शर्मा
		राज्य चिकित्सा आयुक्त, जयपुर

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली-110068, दिनांक 10 नवम्बर 2008

सं.आईजी/प्रशा/(जी)/विनियमन-1/2008/1426--इग्नू अधिनियम 1985 (1985 की संख्या 50) के परिनियम 27(3) के प्रावधानों के तहत

निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने दिनांक 10.08.2008 को आयोजित अपनी 94वीं बैठक में विश्वविद्यालय मुख्यालय में दीक्षांत समारोह के विनियमन के अनुच्छेद 15 एवं 16 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:--

संशोधन के बाद निम्नलिखित अनुच्छेदों को इस प्रकार पढ़ा जाए :

15. संबंधित विद्यापीठों के निदेशक निम्नलिखित शब्दों में उम्मीदवारों को उपाधियों/डिप्लोमा के लिए पेश करेंगे:--

“महोदय, मैंउम्मीदवारों को मुख्यालय में और को क्षेत्रीय केंद्रों में तथाउम्मीदवारों को उनकी अनुपस्थिति में प्रस्तुत करता हूँ, जिनके नाम सूची में दिए गए हैं और जिन्होंने कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उन्हेंमें उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने के योग्य पाया गया है, डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का अनुरोध कर रहा हूँ। अनुरोध है कि इन्हें उपाधि/डिप्लोमा प्रदान किए जाएँ।

उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रस्तुति के समय अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और विद्यापीठ से संबंधित प्रस्तुति को पूरा करने तक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। यह प्रक्रिया सभी विद्यापीठों के लिए जारी रहेगी।

16. सभी विद्यापीठों की प्रस्तुति समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवार अपने स्थान पर खड़े होंगे और कुलपति निम्नलिखित शब्दों में उम्मीदवारों को उपाधि/डिप्लोमा दिए जाने की स्वीकृति देंगे।

“इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार से मैं आपकोमें उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करता हूँ और आपको आपके द्वारा अर्जित योग्यता के अनुरूप बनने का भार सौंपता हूँ।

के. लक्ष्मण

कुलसचिव (प्रशासन)

**NATIONAL HOUSING BANK
HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS,
2001**

New Delhi, the 2nd December 2008

Directions No. NHB.HFC.DIR.24/CMD/2008—The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further emended in the following manner, namely :—

In paragraph 26, under explanation (3), of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 for item (d)(i), the following shall be substituted, viz.

"(i) Fund based and non-fund based exposures to commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)." 100

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

Directions No. NHB.HFC.DIR.25/CMD/2008—The National Housing Bank being satisfied that, in the public interest it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further emended in the following manner, namely :—

In paragraph 26, in explanation (1),

In Sub-Explanation (3), for item b (i) and b (ii), the following shall be substituted, namely :—

(b)(i) Housing loans sanctioned to individuals upto Rs. 30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets where LTV Ratio is = or <75% 50

(b)(ii) Housing loans sanctioned to individuals above Rs. 30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets where LTV Ratio is = or <75% 75

(b)(iii) Housing loans sanctioned to individuals, irrespective of the amount, secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets where LTV Ratio is > 75% 100

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF
INDIA**

New Delhi-110002, the 7th November 2008

No. 13-CA(EXAM)/ISA/D/2008—In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. I-CA(7)/59/2001 dated 28th September 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on 20th December, 2008 from 10.30 am to 2.30 pm at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre as detailed below:—

1	AHMEDABAD	16	KANPUR
2	BANGALORE	17	KOLKATA
3	BAREILLY	18	LUCKNOW
4	BHUBANESWAR	19	LUDHIANA
5	BIKANER	20	MUMBAI
6	CHANDIGARH	21	NAGPUR
7	CHENNAI	22	NASHIK
8	DELHI/NEW DELHI	23	PUNE
9	ERNAKULAM	24	RAIPUR
10	GHAZIABAD	25	RAJKOT
11	HYDERABAD	26	RANCHI
12	INDORE	27	SURAT
13	JABALPUR	28	UDAIPUR
14	JAIPUR	29	VARANASI
15	JALGAON		

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above Test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Senior Joint Secretary (Exams), The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110 002 on payment of Rs. 25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained upon cash payment on or from 12th November, 2008. Alternatively, the formate of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. www.icaai.org and the cost of the application form of Rs. 25/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1025/- has to be

sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 2nd December, 2008.

The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Senior Joint Secretary (Exams), New Delhi. Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of "The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi" only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Senior Joint Secretary (Exams) at New Delhi on or before 2nd December, 2008. The applications received after 2nd December, 2008 will not be entertained under any circumstances.

G. SOMASEKHAR
Senior Joint Secy. (Exams)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the

No. N-15/13/15/2/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st November, 2008 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the West Bengal Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of West Bengal namely:—

"Areas comprising Mouzas of Bamunara and Banskopa in the District of Burdwan".

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

MINISTRY OF LABOUR EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

Kolkata-91, the October 2008

S.O. No. EPFO/ZO/EZ/1(4)NOTIFICATION/2008—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishment namely:—

Sl. No.	Code No.	Name of Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	WB/48310	M/s. Basant Properties Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
2.	WB/48331	M/s. Pilani Investment & Industries Corpn. Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
3.	WB/48332	M/s. Gwalior Finance Corpn. Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
4.	WB/48333	M/s. Central India Industries Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
5.	WB/48334	M/s. Ranchi Enterprises & Properties Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
6.	WB/48335	M/s. Universal Trading Co. Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
7.	WB/48337	M/s. Hindustan Discounting Co. Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
8.	WB/48338	M/s. Bengal Rubber Co. Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
9.	WB/48339	M/s. Central India General Agents Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
10.	WB/48340	M/s. Ganga Properties Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
11.	WB/48341	M/s. Pilani Properties Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
12.	WB/48342	M/s. Produce & Share Brokers Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
13.	WB/48343	M/s. Janardhan Trading Co. Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
14.	WB/48344	M/s. Rajasthan Industries Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
15.	WB/48345	M/s. Rameshwara Jute & Other Concerns' Provident Fund	01.12.2007	01.12.2007
16.	WB/48346	M/s. Soorya Vanijya & Investment Ltd.	01.12.2007	01.12.2007
17.	WB/48380	M/s. Aditya Marketing & Manufacturing Ltd.	01.01.2008	01.01.2008

Sl. No.	Code No.	Name of Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
18.	WB/48384	M/s. Vasavadatta Services Ltd.	01.01.2008	01.01.2008
19.	WB/48385	M/s. Zenith Distributors & Agents Ltd.	01.01.2008	01.01.2008
20.	WB/48391	M/s. Gwalior Webbing Company Pvt. Ltd.	01.01.2008	01.01.2008
21.	WB/48388	M/s. The Punjab Produce & Trading Co. Pvt. Ltd.	01.01.2008	01.01.2008

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

M. M. DAS
Assistant Provident Fund Commissioner (EZ)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Jaipur, the 11th November 2008

S. No. 15/U/11/PTMR./APP./SMC/08—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide H.Q. Letter No. Pt. File No. U-13/12/13/2005-Med.1/PTMR dated 09.09.08. I hereby authorize the following doctor to function as Medical Referee at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee join, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Jaipur (Rajasthan) for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Name	Period	Name of Center
Dr. Ramesh Narayan Laddha	01.12.08 to 30.11.09	Udaipur and Kankroli

Dr. RASHMI SHARMA
State Medical Commissioner, Jaipur

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi-110068, the 10th November 2008

No. IG/Admn(G)/Regulation 1/2008/1426—In exercise of the powers vested in it, under the provisions of Statute 27(3) of the IGNOU Act, 1985 (50 of 1985), the Board of Management of the University, at its 94th meeting held on 10.4.2008 had made

following amendments to paras 15 & 16 of the Regulations for Convocation at University Hqs.

After amendments the following paras read as under :

15. The Directors of Schools concerned will present the candidates for Degrees/Diplomas in the following words :

"Sir, I present to youcandidates of Degree/Diploma inat the Headquarters andat Regional Centres includingcandidates in absentia, whose names are given in the list, who have successfully completed the programme and have been found qualified for the award of the Degree/Diploma inI request that Degree/Diploma be awarded to them."

The candidates receiving the Degrees/Diplomas shall stand while they are being presented and remain standing until the Director completes the presentation pertaining to the School. This procedure will continue for all the Schools.

16. When the presentations from all the Schools are over, all the candidates will stand up and the Vice-Chancellor will admit the candidates to the Degrees/Diplomas in the following words

"By virtue of the authority vested in me as Vice-Chancellor of Indira Gandhi National Open University, I award you the Degree/Diploma in and charge you to be worthy of the qualifications that you have earned."

K. LAXMAN
Registrar (Admn)